



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 2007/फाल्गुन 11, 1928

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 2007/PHALGUNA 11, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2007

(आयकर)

का.आ. 311(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23डक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा “द स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड, द स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई, 25वां तल, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई-400023” को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ ‘द स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई’ जो भारत में एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, द्वारा स्थापित एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 65/2007/फा. सं. 197/56/2006/आ.क.नि. I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2007

(INCOME-TAX)

S.O. 311(E).—In exercise of the powers conferred by the clause (23EA) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the “The Stock Exchange Investors’ Protection Fund, The Stock Exchange, Mumbai, 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Fort Mumbai-400023” as an Investor Protection Fund set up by “The Stock Exchange, Mumbai,” a recognised stock exchange in India, for the purpose of the said clause.

[Notification No. 65/2007/F.No. 197/56/2006-ITA-I]

DEEPAK GARG, Under Secy.